

NAVODAYA VIDYALYA EXAM 2026

IMPORTANT QUESTIONS

SIMPLE INTEREST

- What is the simple interest on ₹2,400 for 3 years at 5% per annum?
(A) ₹360 (B) ₹320
(C) ₹240 (D) ₹180
 - Find the amount when ₹1,500 is invested for 4 years at 8% per annum.
(A) ₹1,980 (B) ₹1,920
(C) ₹1,860 (D) ₹1,800
 - At what rate percent per annum will ₹3,000 amount to ₹3,600 in 4 years?
(A) 5% (B) 4%
(C) 6% (D) 8%
 - In how many years will ₹2,000 amount to ₹2,800 at 10% per annum?
(A) 4 years (B) 3 years
(C) 5 years (D) 6 years
 - What principal will amount to ₹4,320 in 3 years at 8% per annum?
(A) ₹3,500 (B) ₹3,600
(C) ₹3,480 (D) ₹3,400
 - The simple interest on ₹5,000 for 2 years is ₹800. Find the rate percent.
(A) 8% (B) 6%
(C) 10% (D) 12%
- 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए ₹2,400 पर साधारण ब्याज क्या है?
(A) ₹360 (B) ₹320
(C) ₹240 (D) ₹180
 - 8% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए ₹1,500 का निवेश करने पर राशि ज्ञात कीजिए।
(A) ₹1,980 (B) ₹1,920
(C) ₹1,860 (D) ₹1,800
 - किस प्रतिशत वार्षिक दर से 4 वर्षों में ₹3,000 की राशि ₹3,600 हो जाएगी?
(A) 5% (B) 4%
(C) 6% (D) 8%
 - 10% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्षों में ₹2,000 की राशि ₹2,800 हो जाएगी?
(A) 4 वर्ष (B) 3 वर्ष
(C) 5 वर्ष (D) 6 वर्ष
 - 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में कौन सी मूल राशि ₹4,320 हो जाएगी?
(A) ₹3,500 (B) ₹3,600
(C) ₹3,480 (D) ₹3,400
 - 2 वर्षों के लिए ₹5,000 पर साधारण ब्याज ₹800 है। दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
(A) 8% (B) 6%
(C) 10% (D) 12%

7. What is the difference between the simple interest on ₹1,200 for 3 years at 5% and 6% per annum?
(A) ₹36 (B) ₹24
(C) ₹48 (D) ₹30
8. If ₹800 amounts to ₹920 in 3 years, what is the rate of interest?
(A) 5% (B) 4%
(C) 6% (D) 8%
9. What sum will amount to ₹6,300 in 5 years at 8% per annum?
(A) ₹4,500 (B) ₹4,200
(C) ₹4,800 (D) ₹5,000
10. The simple interest on a sum for 4 years at 6% per annum is ₹1,440. Find the principal.
(A) ₹6,000 (B) ₹5,500
(C) ₹6,500 (D) ₹7,000
11. At 12% per annum, the simple interest on ₹2,500 for how many years is ₹1,200?
(A) 4 years (B) 3 years
(C) 5 years (D) 6 years
12. What is the simple interest on ₹3,600 for $2\frac{1}{2}$ years at 5% per annum?
(A) ₹450 (B) ₹360
(C) ₹480 (D) ₹540
13. If the rate of interest is 7.5% per annum, what is the simple interest on ₹4,800 for 8 months?
(A) ₹240 (B) ₹200
(C) ₹280 (D) ₹320
7. 5% और 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए ₹1,200 पर साधारण ब्याज के बीच क्या अंतर है?
(A) ₹36 (B) ₹24
(C) ₹48 (D) ₹30
8. यदि 3 वर्षों में ₹800 की राशि ₹920 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है?
(A) 5% (B) 4%
(C) 6% (D) 8%
9. 8% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में कौन सी राशि ₹6,300 हो जाएगी?
(A) ₹4,500 (B) ₹4,200
(C) ₹4,800 (D) ₹5,000
10. किसी राशि पर 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ₹1,440 है। मूलधन ज्ञात कीजिए।
(A) ₹6,000 (B) ₹5,500
(C) ₹6,500 (D) ₹7,000
11. 12% प्रति वर्ष की दर से ₹2,500 पर कितने वर्षों के लिए साधारण ब्याज ₹1,200 होगा?
(A) 4 वर्ष (B) 3 वर्ष
(C) 5 वर्ष (D) 6 वर्ष
12. 5% प्रति वर्ष की दर से ₹3,600 पर $2\frac{1}{2}$ वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या है?
(A) ₹450 (B) ₹360
(C) ₹480 (D) ₹540
13. यदि ब्याज दर 7.5% प्रति वर्ष है, तो 8 महीने के लिए ₹4,800 पर साधारण ब्याज क्या है?
(A) ₹240 (B) ₹200
(C) ₹280 (D) ₹320

14. What principal will give a simple interest of ₹630 in 3 years at 7% per annum?
 (A) ₹3,000 (B) ₹2,800
 (C) ₹3,200 (D) ₹2,500
15. The simple interest on ₹1,800 at a certain rate for 4 years is ₹576. What is the rate percent?
 (A) 8% (B) 6%
 (C) 10% (D) 12%
16. What is the amount when ₹5,400 is invested for $1\frac{1}{2}$ years at 6% per annum?
 (A) ₹5,886 (B) ₹5,800
 (C) ₹5,940 (D) ₹6,000
17. In how many years will ₹4,500 double itself at 12.5% per annum?
 (A) 8 years (B) 6 years
 (C) 10 years (D) 12 years
18. What is the simple interest on ₹7,200 for 9 months at 8% per annum?
 (A) ₹432 (B) ₹480
 (C) ₹360 (D) ₹540
19. At what rate will ₹2,400 amount to ₹2,880 in 5 years?
 (A) 4% (B) 3%
 (C) 5% (D) 6%
20. The simple interest on ₹6,000 for 2 years 4 months at 9% per annum is:
 (A) ₹1,260 (B) ₹1,080
 (C) ₹1,440 (D) ₹1,200
14. 7% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में ₹630 का साधारण ब्याज किस मूलधन पर मिलेगा?
 (A) ₹3,000 (B) ₹2,800
 (C) ₹3,200 (D) ₹2,500
15. 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर ₹1,800 पर साधारण ब्याज ₹576 है। दर प्रतिशत क्या है?
 (A) 8% (B) 6%
 (C) 10% (D) 12%
16. ₹5,400 को 6% प्रति वर्ष की दर से $1\frac{1}{2}$ वर्ष के लिए निवेश करने पर राशि क्या होगी?
 (A) ₹5,886 (B) ₹5,800
 (C) ₹5,940 (D) ₹6,000
17. 12.5% प्रति वर्ष की दर से ₹4,500 कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा?
 (A) 8 वर्ष (B) 6 वर्ष
 (C) 10 वर्ष (D) 12 वर्ष
18. 8% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने के लिए ₹7,200 पर साधारण ब्याज क्या है?
 (A) ₹432 (B) ₹480
 (C) ₹360 (D) ₹540
19. किस दर से 5 वर्षों में ₹2,400 की राशि ₹2,880 हो जाएगी?
 (A) 4% (B) 3%
 (C) 5% (D) 6%
20. ₹6,000 पर 2 वर्ष 4 महीने के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज है:
 (A) ₹1,260 (B) ₹1,080
 (C) ₹1,440 (D) ₹1,200